

AI Assistant

An AI assistant is a software program that uses artificial intelligence—specifically natural language processing (NLP) and machine learning—to understand user commands, answer questions, and perform tasks. Operating on devices like smartphones and computers, these assistants, such as Microsoft Copilot, are reactive tools designed to increase productivity.

एक AI असिस्टेंट एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस—खास तौर पर नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग (NLP) और मशीन लर्निंग—का इस्तेमाल करके यूजर के कमांड को समझता है, सवालों के जवाब देता है और काम करता है। स्मार्टफोन और कंप्यूटर जैसे डिवाइस पर काम करने वाले ये असिस्टेंट, जैसे कि Microsoft Copilot, ऐसे रिएक्टिव टूल हैं जिन्हें प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के लिए डिज़ाइन किया गया है।

AI Assistant System Requirements (Offline):

Recommended Hardware (For Better Performance)

Operating Systems: Windows 10/11

CPU: Processor (Intel i5/i7)

RAM: 8GB minimum (16GB recommended for better performance) to 32GB+

GPU: NVIDIA GPU with 6GB–12GB + VRAM

Storage: SSD required (approx. 5GB–10GB)

A computer is an electronic device that can store, process, and communicate information. It is a complex machine made up of hardware and software components that work together to perform various tasks.

The basic components of a computer include:

1. **Central Processing Unit (CPU):** Also known as the processor, it executes instructions and performs calculations.
2. **Memory (RAM):** Temporary storage for data and applications.
3. **Storage Drive:** Holds the operating system, programs, and data.
4. **Input Devices:** Allow users to interact with the computer, such as keyboard, mouse, and scanner.
5. **Output Devices:** Display information to the user, like monitor, speakers, and printer.

Computers can perform a wide range of tasks, including:

1. **Processing data:** Performing calculations, sorting, and analyzing data.

Send a message

Screenshot 2

2. **Storing files:** Saving and retrieving digital documents, images, audio, and video.
3. **Communicating with others:** Sending and receiving emails, messages, and data through the internet.
4. **Running applications:** Executing software programs that perform specific tasks, like word processing, web browsing, or gaming.

Computers have revolutionized modern life, enabling us to access vast amounts of information, connect with others, and automate many tasks.



Send a message